



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
प्रेस नोट

दिनांक-21.07.2022

थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्तगण कुणाल रघुवंशी उर्फ गोलू व उदय प्रताप सिंह उर्फ गोलू गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0224/2022 धारा 307 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1.कुणाल रघुवंशी उर्फ गोलू पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम महुअर कला थाना- बलुआ जनपद चन्दौली 2.उदय प्रताप सिंह उर्फ गोलू पुत्र प्रमोद कुमार सिंह निवासी मझमिटीयाँ छोटालालपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी को गोइठहा मंदिर के पास से आज दिनांक- 21.07.2022 को समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद मोटर साइकिल टीवीएस अपाचे बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-0225/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-20.07.2022 को वादी मुकदमा श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामजी सिंह निवासी मझमिटीयाँ थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी ने अभियुक्तगण 01-प्रकाश सिंह उर्फ लल्ला और उसके साथी 02-उदय सिंह उर्फ गोलू व 03-गोलू सिंह पुत्र संजय सिंह के द्वारा पुरानी रंजिश के कारण उनके पुत्र अनुराग सिंह उर्फ भोलू जो मिट्टी का काम करता है उसे जान से मारने की नियत से सर में गोली मारकर फरार हो जाने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0-0224/2022 धारा 307 भादवि पंजीकृत कर, विवेचना उ0नि0 श्रीराम उपाध्याय के द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.कुणाल रघुवंशी उर्फ गोलू पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम महुअर कला थाना-बलुआ जनपद चन्दौली, उम्र 20 वर्ष।
- 2.उदय प्रताप सिंह उर्फ गोलू पुत्र प्रमोद कुमार सिंह निवासी मझमिटीयाँ छोटालालपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा .315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद मोटर साइकिल टीवीएस अपाचे नं0 UP 65 DB 1777 बरामद ।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि हमदोनों, प्रकाश सिंह उर्फ लल्ला और अनुराग सिंह प्लाट में मिट्टी भरने के लिए ठेका लेते हैं । हम लोग गायत्री नगर कालोनी अर्दली बाजार थाना कैण्ट वाराणसी में मिट्टी गिराये थे, जिसमें हम लोगों को 35000/-रुपया का फायदा हुआ था । पुनः अनुराग सिंह चौबेपुर थाना में 1 लाख का मिट्टी गिराने का ठेका लिया था, जिसमें हमलोगों को सम्मिलित नहीं कर रहा था इसलिए हमलोग उसे जान से मारने के नियत से मझमिटीया मैदान में बुलाये और प्रकाश सिंह उर्फ लल्ला ने उसे गोली मार दिया । हम लोग अपाचे मोटरसाइकिल से प्रयागराज भाग गये थे । आज हम दोनों वकील से बात करने के लिए कचहरी जा रहे थे कि तभी आपलोगों के द्वारा पकड़ लिये गये ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.उ0नि0 श्रीराम उपाध्याय थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.उ0नि0 आनन्द कुमार चौरसिया थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4.हे0का0 सुरेन्द्र मौर्या थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 5.का0 चन्द्रेश कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 6.का0 मनीष तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 7.का0 उपेन्द्र बहादुर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 8.का0 हरिश्चन्द्र गुप्ता थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

